

## Lesson 7 & 8 :

नैहरवा हमका न भावै  
साई की नगरी परम अति सुन्दर, जहाँ कोई जाय न आवै  
चाँद सूरज जहाँ पवन न पानी, को सदेस पहुंचावै  
दरद यह साई को सुनावै?  
आगे चलो पथ नहीं सूझे, पीछे दोष लगावै  
केहि विधि ससुरे जाऊँ मोरी सजनी, विरह जोर जरावै  
विषय रस नाच नचावै  
बिन सतगुरु अपनो नहीं कोई जो यह राह बतावै  
कहत कबीरा सुनो भाई साधो सपने नु पीतम आवै  
तपन यह जिया की बुझावै - कबीर

Translation : I no more like my parents' place. The city where my beloved lives is beautiful beyond bounds but no one can come from or go there; not even the moon, the sun, or water or air. How do I communicate my pain to the beloved? Ahead of me, there is no path and behind, there is just the past! Where do I go? I can no longer bear the separation! The path to the beloved's city can be shown only by a true master! Only he can extinguish this fire of separation.

हम परदेसी पंछी बाबा अणी देस रा नाहीं, हो जी  
अणी देस रा, लोग अचेता पल पल पर पछताई, भाई संतो  
मुख बिन गाना, पग बिन चलना बिना पंख उड़ जाई, हो जी  
बिना मोह की सूरत हमारी अनहद मे रम जाई, भाई संतो  
छाया बैटूँ, अगनी व्यापे, धूप अधिक सितलाई, हो जी  
छाया धूप से सतगुरु न्यारा हम सतगुरु के माही, भाई संतो  
आठों पहर अडग रहे आसन कदे न उतरे साई, हो जी  
मन पवना दोनों नहीं पहुंचे उन्ही देस रा माही, भाई संतो  
निरगुण रूपी है मेरे दाता सरगुण नाम धराई, हो जी  
कहे कबीर सुनो भाई साधो साहब है घट माही, भाई संतो - कबीर

Translation : I don not belong to this world. In this world, people suffer every moment due to their unawareness. I - the Jyoti within sings without the mouth, walks without legs, and flies without wings. Not interested in the worldly things, it becomes one with the Anahad Naad. The shade (worldly comforts) burns me and fire (Tapas) comforts me. Satguru is beyond them both (pleasures and Tapas). For eight prahars (24 hours) I am in the state of meditation - beyond the touch of worldly affairs. Mind and breath cannot reach the world where I dwell. My lord is Nirgun and manifests in multiple forms (Sagun). Kabir says, what you seek is within you!

मोहे सुन सुन आवे हासी पानी में मीन प्यासी,  
आतम ज्ञान बिना नर भटके कोई मथुरा कोई काशी,  
मिरगा न भी वसे कस्तूरी बन बन फिरत उदासी,  
जल बीच कवल कवल बीच कलियाँ, ता पर भवर निवासी,  
सो मन बस तिरलोक बहियो है यति सीत सन्यासी,  
जातो धान धरे निशवाशर मुनि जन सहस अठासी,  
सो तेरे घट माही विराजे परम पुरुष अविनाशी,  
है हाज़िर तोहे दूर बता वे दूर की बात निरासी,  
कहे कबीर सुनो भाई साधो गुरु बिन बरहम ना जासी - कबीर

Translation : I laugh when I hear about a thirsty fish in the water. And look at people going to Mathura and Kashi in search of knowledge and god! They all are like poor musk-deer, seeking the source of intoxicating fragrance everywhere but inside. A bumble bee gets attracted towards the lotus (world) but not the water (Brahman) in which it rises. In same way, mind of Yogis and Sanyasis remains entangled in the Maya. The imperishable jyoti on which Munis meditate day and night is within you! What is present right here and right now, appears far away because of Maya. Kabir says, only a Guru can break this curtain of delusion.

माला फेरत जुग भया फिरा न मन का फेर ।  
कर का मनका डार दे, मन का मनका फेर ॥ - कबीर

Translation : Nothing is going to happen even if you keep turning the beads of rosary eternally. Instead of turning those beads, turn your outward mind inward.

## Lesson 9 :

बेहद अगाधी पीव है, ये सब हद के जीव ।  
जे नर राते हद सो, ते कदै न पावे पीव ॥  
हद में पीव न पाईये, बेहद में भरपूर ।  
हद-बेहद की गम लखै, तासों पीव हज़ूर ॥ - कबीर

Translation : The eternal beloved is beyond limits and we humans are defined by our boundaries. Those who associate themselves with their boundaries can never get a glimpse of the beloved. When the limits exist, the beloved does not. When limits disappear, he appears. The beloved is always present for the one who has stepped beyond this duality of limit and limitlessness.

हद छाँड़ि बेहद गया, रहा निरंतर होय ।  
बेहद के मैदान में रहा कबीर सोय ॥ - कबीर

Translation : I went beyond the boundaries of the mind and now I eternally rest in the infinite ground of limitlessness.

गगन गरजै, बरषै अमी, बादल गहर गंभीर  
चँहु दिसी दमके दामिनी, भीजै दास कबीर - कबीर

Translation : Clouds are rumbling, the sky is full of clouds filled with nectar and lightnings glazing all around. Kabir is drenched in the love of beloved!